




ज्योतिषताजा खबरेराष्ट्रीय

## प्रधानमंत्री जी के 5 अप्रैल 2020 को रात में 9 बजे 9-दीपक जलाने के आवाहन का वैज्ञानिक पहलू

April 4, 2020 | TheEdge Media | No Comments



IC-WAC

प्रोफ० भरत राज सिंह

महानिदेशक, स्कूल आफ मैनेजमेन्ट साइंसेस,  
व अध्यक्ष, वैदिक विज्ञान केन्द्र, लखनऊ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड में तमाम घटनाओ ऐसी है जिसमें हम यदि ग्रहो की संख्या देखें तो वह 9 है, प्रत्येक ग्रह की 12-राशियो होती है जिसके अनुसार कुल संख्या=108 आती है और योग= 9 आता है । वही ज्योतिष के अनुसार 27-नक्षत्रो होते है और प्रत्येक नक्षत्र के 4-चरण होते है, इसकी संख्या =108 आती है, और योग भी 9 आता है । यही नही आकाश-गंगा के तारो की संख्या 108 होता है, जिसका भी योग=9 होता है तथा समुंद्र मंथन में 54-देव और 54-असुरो द्वारा अमृत कलश निकला था, जिसका योग=9 आता है । रुद्राक्ष व तुलसी की मालाओ में भी मनिकाए भी 108-108 होती है, जिनके भी योग 9-9 आता है । यह सन्योग नही कहा जा सकता है, इन सबका ब्रह्मांड में महत्व है । सम्पूर्ण ब्रह्मांड गतिशील है और परम शक्ति से ओत-प्रोत है।

आज जब कोरोना ने पूर्ण मानवता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सामूहिक शक्ति प्रदर्शन के लिये जनता कर्फू, उसके बाद लाकडाउन और अब 5 अप्रैल 2020 को 9 बजे रात को 9 मिनट के लिये विजली बंद करने के उपरान्त दिया जलाकर, मोमबत्ती या मोबाइल की लाइट जलाकर सामूहिक शक्ति प्रदर्शन कर देश-वासियों से जहाँ कोरोना महामारी के अंधकार से रोशनी की आश लगाई जा रही है, वही दूसरी तरफ लोगों में एकता का अटूट प्रदर्शन होगा, जिस शक्ति से कोरोना हारेगा । भले ही ज्योतिष के कड़ी में 5 अप्रैल का योग (5+4=9) है तथा 9 बजे सायं और 9 मिनट उजाला करना सभी का योग =(9+9+9=27) जो पुनः 9 अंक बना रहा है और शुभ लक्षण दिखा रहा है कि कोरोना पर मानवता की विजय होगी, उसी क्रम में, वैज्ञानिक पहलू पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है ।

इसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि जहाँ मानव द्वारा प्रकृति में किये जा रहे अप्रत्याशित छेड़-छाड़ से ब्रह्मांड पर अत्यधिक बुरा असर पड़ चुका है और प्रदूषण ने तो पूर्ण मानवता को भी नष्ट करने के कगार पर ला दिया है । जो मनुष्य के द्वारा धरती के अवयवों को अप्रत्यासित ढंग से दोहन अथवा नष्ट करने से हुआ है । विगत दो-वर्षों से यह देखा जा रहा है कि हवा व ध्वनि प्रदूषण विश्वभर में अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है और विश्व के 20-अधिकतम प्रदूषित शहरों में से 16-शहर तो भारतवर्ष के हैं, जहाँ वायु प्रदूषण इंडेक्स-2.5 जो 490 से 589 तक पहुँच चुका था ।

इस वर्ष तो इसकी चरम सीमा का लोगों द्वारा अनुभव किया जा रहा था कि जैसे हम सभी गैस-चैम्बर में स्वाँस ले रहे हों । इससे वीमारी की अधिकता भी बढ़ी हुई पायी गई और मृत्यु दर में भी बढ़ोत्तरी पाया गया । हमें यह जानकर खुशी होगी कि आजका लखनऊ का ए.क्यू.आई. इंडेक्स – 59 है, जबकि यही 22 मार्च 2020 को लखनऊ में 187 था । मोदीजी के 5 अप्रैल 2020 के प्रयास से, जहाँ भारतवर्ष की प्रतिदिन की उत्पन्न विजली 11,84,672 मेगा यूनिट है उसमें में मात्र 9-मिनट में ही लगभग 7,450 मेगा यूनिट की बचत होगी और वही स्वास्थ्य के लिये हवा और शुद्ध होकर कोरोना महामारी सक्रमण को भी समाप्त करने में मदद मिलेगी ।

वही दूसरी तरफ, दुनिया भर में विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों में तेल के दीपक जलाना एक हिस्सा था, जब तक कि बिजली की रोशनी लोकप्रिय नहीं हुई। सबसे पहले ज्ञात तेल का दीपक लगभग 4500 से 3300 ईसा पूर्व के चालकोलिथिक युग में उपयोग में लाये जाने का जिक्र है। आज, उनका उपयोग केवल कुछ घरों व त्योहारों तक सीमित है अथवा अब केवल किसी अपील के साथ जुड़ा है ।

यद्यपि इसका उद्धरण संस्कृत के मंत्रों में मिलता है –

शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदाम् ।

शत्रुबुद्धिबिनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते ॥

यह आरोग्य बनाता है और धन-धान्य से परिपूर्ण करके शुभ कल्याण करता है । इससे शत्रु का विनाश, और बुद्धि के विकास में दीप- ज्योति मदद करती है ।

दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः ।

दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते ॥

पाप को हरने वाली दीप ज्योति परब्रह्म जो सभी पाप को हरण करती है, इसे नमस्कार करते हैं ।

तेल के दीपक को जलाने के कुछ फायदे हैं । कुछ वनस्पति तेलों का उपयोग, विशेष रूप से यदि आप दीपक को जलाने के लिए सरसो का तेल, तिल का तेल, अरंडी का तेल या घी का उपयोग करते हैं, तो एंटी-ऑक्सीडेंट ग्राफीन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिससे जर्म, बैक्टीरिया के कण, सूक्ष्म कीड़े आदि नष्ट हो जाते हैं । यह नकारात्मकता को समाप्त करता है और इसका सकारात्मक ऊर्जा का अपना क्षेत्र पैदा होगा । अब जब भारत की 130 करोड़ जनता द्वारा यदि तेल अथवा घी का 9-9 दिया, 9-मिनट तक जलाये जायेगे तो उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी ।

अतः प्रधान-मंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे 9-दीपक जलाकर सामूहिक शक्ति प्रदर्शन कर कोरोना महामारी संक्रमण पर विजय प्राप्त करने हेतु आव्हान का बहुत बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा ।

\*\*\*\*\*